



**Staff Selection Commission**  
(Government Of India)

**REGISTRATION NUMBER : 9204004826**  
**EXAM DATE : 27-August-2016**  
**EXAM NAME : SSC Examination 2016**  
**TOTAL MARKS : 200**

**CANDIDATE NAME : ASHINA R P**  
**EXAM START TIME : 10:00:00**  
**EXAM DURATION : 01:15 Hrs**  
**TOTAL NO OF QUESTIONS : 100**

Question 1. Select the related word/letters/number from the given alternatives.

दिये गये विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षरों/संख्या को चुनिए।

Donkey : Brays :: Monkey : ?

गधा : रैंकना : बन्दर : ?

**Options:**

1) Chatters

चहकना

2) Trumpets

चिंघाड़ना

3) Bellows

गरजना

4) Grunts

धुरधुराना

**Correct Answer:** Chatters

चहकना

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 2. Select the related word/letters/number from the given alternatives.

दिये गये विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षरों/संख्या को चुनिए।

ABDE : FGJI :: IJLM : ?

**Options:**

1) NOQR

2) NOPQ

3) NMOP

4) NPQR

**Correct Answer:** NOQR

**Candidate Answer:** NOQR

Question 3. Select the related word/letters/number from the given alternatives.

दिये गये विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षरों/संख्या को चुनिए।

1 : 8 :: ? : 64

**Options:**

1) 25

2) 36

3) 30

4) 27

**Correct Answer:** 27

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 4.

**For the following questions**

Find the odd word/letters/number pair from the given alternatives.

दिये गए विकल्पों में से विषम शब्द/ अक्षर/ संख्या युग्म छांटिए।

**Options:**

- 1) Swimming
- 2) Sailing
- 3) Diving
- 4) Driving

**Correct Answer:** Driving**Candidate Answer:** Driving

Question 5.

**For the following questions**

Find the odd word/letters/number pair from the given alternatives.

दिये गए विकल्पों में से विषम शब्द/ अक्षर/ संख्या युग्म छांटिए ।

**Options:**

- 1) RGTF
- 2) MLOK
- 3) CTES
- 4) VDZC

**Correct Answer:** VDZC**Candidate Answer:** VDZC

Question 6.

**For the following questions**

Find the odd word/letters/number pair from the given alternatives.

दिये गए विकल्पों में से विषम शब्द/ अक्षर/ संख्या युग्म छांटिए ।

**Options:**

- 1) 443
- 2) 633
- 3) 821
- 4) 245

**Correct Answer:** 633**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 7. Arrange the following words as per order in the dictionary

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए।

1. Dyke 2. Dwindle 3. Dwell 4. Dye

**Options:**

- 1) 3,2,4,1
- 2) 1,3,4,2
- 3) 2,1,3,4
- 4) 3,4,2,1

**Correct Answer:** 3,2,4,1**Candidate Answer:** 3,2,4,1

Question 8. Choose the correct alternative that will replace the question mark in the given series:

सही विकल्प चुनकर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखिए ।

DHL, PTX, BFJ, ?

**Options:**

- 1) KOS
- 2) NRV
- 3) NPS
- 4) NRU

**Correct Answer:** NRV**Candidate Answer:** NRV

Question 9. Find the wrong number in the series:

सीरीज में गलत संख्या छांटिए।

28, 33, 31, 36, 34, 29

**Options:**

1) 33

2) 36

3) 34

4) 29

**Correct Answer:** 29**Candidate Answer:** 29

Question 10. The age of Rakhi is twelve times that of her daughter Anubha. If age of Anubha is 3 years now, then what was the age of Rakhi, 2 years earlier?

राखी की आयु उसकी पुत्री (अनुभा) की आयु की 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी ?

**Options:**

1) 20 years

20 वर्ष

2) 34 years

34 वर्ष

3) 30 years

30 वर्ष

4) 36 years

36 वर्ष

**Correct Answer:** 34 years

34 वर्ष

**Candidate Answer:** 34 years

34 वर्ष

Question 11. Satya's birthday falls on 15th August and Meena's birthday falls on 25th June. If Meena's birthday was on Wednesday, what was the day on Satya's birthday in the same year?

सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था, तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था ?

**Options:**

1) Friday

शुक्रवार

2) Monday

सोमवार

3) Tuesday

मंगलवार

4) Saturday

शनिवार

**Correct Answer:** Friday

शुक्रवार

**Candidate Answer:** Monday

सोमवार

Question 12. From the given words, select the word which can be formed using the letters of the given word.

निम्नलिखित शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से बनाया जा सकता है ?

AMPLIFICATION

**Options:**

1) ACTOR

2) MANOR

3) CHAMP

4) MANIA

**Correct Answer:** MANIA**Candidate Answer:** ACTOR

Question 13. If BLACKSMITH is coded as CNBELUNKUJ, then CHILDREN will be coded as ?

अगर BLACKSMITH का कोड CNBELUNKUJ हो तो CHILDREN का कोड क्या होगा ?

**Options:**

- 1) DIJMESFO
- 2) DJJNETFP
- 3) DJINETEP
- 4) DJJNETEP

**Correct Answer:** DJJNETFP**Candidate Answer:** DJJNETFPQuestion 14. If  $17 + 17 = 2895$ 

$18 + 18 = 3245$

$19 + 19 = 3615$

then  $23 + 23 = ?$ यदि  $17 + 17 = 2895$ 

$18 + 18 = 3245$

$19 + 19 = 3615$

हो तो  $23 + 23 = ?$ **Options:**

- 1) 5765
- 2) 2565
- 3) 4005
- 4) 5295

**Correct Answer:** 5295**Candidate Answer:** 5295

Question 15. In the following problem, '=' stands for '÷', '+' stands for '-', 'x' stands for '=', '-' stands for '+' and '÷' stands for 'x'. Find the correct equation.

यदि (=) का मतलब (÷), (+) का मतलब (-), (x) का मतलब (=), (-) का मतलब (+), और (÷) का मतलब (x) हो, तो सही समीकरण ज्ञात कीजिए ?


**Options:**

- 1)  $8 \div 4 + 1 - 5 = 6 \times 4$
- 2)  $4 \times 6 \div 4 + 4 = 7$
- 3)  $5 \div 3 - 25 + 20 = 20 \times 39$
- 4)  $96 \div 2 \times 6 \div 105 + 1$

**Correct Answer:**  $5 \div 3 - 25 + 20 = 20 \times 39$ **Candidate Answer:**  $5 \div 3 - 25 + 20 = 20 \times 39$ 

Question 16. Select the missing number from the given responses.

लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए ?

**Options:**

- 1) 432
- 2) 334
- 3) 512
- 4) 501

**Correct Answer:** 512**Candidate Answer:** 512

Question 17. A man walked 9 km towards East and then 12 km towards South. How far is he from the starting point?

एक आदमी 9 कि.मी. पूर्व की ओर उसके बाद 12 कि.मी. दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारम्भ और अन्तिम बिन्दु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ?

**Options:**

- 1) 8 km  
8 कि.मी.
- 2) 6 km  
6 कि.मी.
- 3) 15 km  
15 कि.मी.
- 4) 7.5 km  
7.5 कि.मी.

**Correct Answer:** 15 km  
15 कि.मी.

**Candidate Answer:** 15 km  
15 कि.मी.

Question 18. Consider the given statement/s to be true and decide which of the given conclusions/assumptions can definitely be drawn from the given statement.

Statement: Poverty is a symptom as well as a consequence of social disorder.

- Assumptions: I. Poverty is a type of social order  
II. Poverty is related to social order

निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिये गये हैं, जिसके आगे दो निष्कर्ष/मान्यताएं, I और II निकाले गये हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कोन-सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष/मान्यता निकाला जा सकता है ?  
कथन : गरीबी, सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है।

- निष्कर्ष : I. गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है।  
II. गरीबी सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित है।

**Options:**


- 1) only I assumption is correct  
केवल निष्कर्ष I सही है।
- 2) only assumption II is correct  
केवल निष्कर्ष II सही है।
- 3) Both assumptions I and II are correct  
दोनों निष्कर्ष I और II सही हैं।
- 4) Neither assumption I nor II is correct  
ना तो निष्कर्ष I सही है और ना ही निष्कर्ष II

**Correct Answer:** Neither assumption I nor II is correct  
ना तो निष्कर्ष I सही है और ना ही निष्कर्ष II

**Candidate Answer:** only assumption II is correct  
केवल निष्कर्ष II सही है।

Question 19. How many squares are there in the square figure ABCD?

वर्ग ABCD में कितने वर्ग हैं ?

**Options:**


- 1) 16
- 2) 17
- 3) 26
- 4) 30

**Correct Answer:** 30

**Candidate Answer:** 30

Question 20. Find the part which represents those actors who are also singers

वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है कि जो अभिनेता है वह गायक भी है।



Options:


- 1) a
- 2) b
- 3) c
- 4) f

Correct Answer: c





Candidate Answer: c

Question 21. Which answer figure will complete the pattern in the question figure?

कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी ?



Options:



Correct Answer:




Candidate Answer:




Question 22. From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded.

दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है।



Options:


1)




2)



3)





4)



Correct Answer:




Candidate Answer:




Question 23. A piece of paper is folded and cut as shown below in the question figures. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened.

नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा ?




Options:


1)




2)




3)




4)



Correct Answer:





Candidate Answer:



Question 24. Which of the answer figure is exactly the water image of the given figure?

दी गई आकृतियों में से उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिम्ब कौन सा है ?





**Options:**

1)

С	В	О	Н	Ь
Е	Т	А		

2)

Ч	Н	О	Р	А
Ә	Т	Е		

3)

Е	Т	А		
С	В	О	Н	Ь

4)

Ә	Т	Е		
Ч	Н	О	Р	А

**Correct Answer:**

Е	Т	А		
С	В	О	Н	Ь

**Candidate Answer:**

Е	Т	А		
С	В	О	Н	Ь

Question 25. In the question, a word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as in two matrices given below. The columns and rows of Matrix I are numbered from 0 to 4 and that of Matrix II are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, e.g., G can be represented by 04, 40, etc., and 'K' can be represented by 56, 75, etc.

Similarly you have to identify the set for the word 'NILE'

निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह, अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसे कि नीचे दिए गए दो आव्यूहों में हैं। आव्यूह I के सतम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक दी गई है, और आव्यूह II के 5 से 9 तक, इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, G को 04, 40, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा K को 56, 75, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको दिए शब्द 'NILE' के लिए समूह को पहचानना है।

Matrix - I

	0	1	2	3	4
0	C	D	E	F	G
1	F	G	C	D	E
2	D	E	F	G	C
3	E	F	G	C	D
4	G	C	D	E	F

Matrix - II

	5	6	7	8	9
5	H	K	L	I	N
6	I	N	H	K	L
7	K	L	I	N	H
8	L	I	N	H	K
9	N	H	K	L	I

**Options:**

1) 56, 58, 03, 02

2) 59, 77, 85, 43

3) 56, 62, 03, 02

4) 57, 60, 10, 02

**Correct Answer:** 59, 77, 85, 43**Candidate Answer:** 59, 77, 85, 43

Question 26. Trickle down theory ignores the impact of economic growth on

टपकन सिद्धांत (आपमात्रीय सिद्धांत) निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजर अंदाज करता है ?

**Options:**

1) Investment

निवेश

2) Savings

बचत

3) Income distribution

आय वितरण

4) Consumption

उपयोग

**Correct Answer:** Income distribution

आय वितरण

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 27. The Comptroller and Auditor General of India does not audit the receipts and expenditure of

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा नहीं करते ?

**Options:**

1) Central Government

केंद्र सरकार

2) Local Bodies

स्थानीय निकाय

3) State Government

राज्य सरकार

4) Government Companies

सरकारी कम्पनियां

**Correct Answer:** Local Bodies

स्थानीय निकाय

**Candidate Answer:** Local Bodies

स्थानीय निकाय

Question 28. In which year did the Kakori conspiracy case take place?

काकोरी षडयंत्र मामले किस वर्ष में हुआ ?

**Options:**

1) 1925

2) 1924

3) 1926

4) 1927

**Correct Answer:** 1925

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 29. The Taj Mahal is called 'a dream in marble'. Which monument is called as 'a dream in stone'?

ताज महल को 'संगमरमर में स्वप्न' (a dream in marble) कहा जाता है ? किस स्मारक को 'पत्थर में स्वप्न' कहा जाता है ?

**Options:**

1) The Rang Mahal

रंग महल

2) The Panch Mahal

पंच महल

3) The Red Fort

लाल किला

4) The Bahai temple

बहाई मन्दिर

**Correct Answer:** The Panch Mahal

पंच महल

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 30. Sex-ratio in India is measured as

भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है ?

**Options:**

1) Number of males per thousand females

प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या

2) Number of females per thousand males

प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या

3) Number of males per hundred females

प्रति सौ स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या

4) Number of females per hundred males

प्रति सौ पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या

**Correct Answer:** Number of females per thousand males  
प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या

**Candidate Answer:** Number of females per thousand males  
प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या

Question 31. Companion cells are unique to

सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं ?

**Options:**

- 1) Bryophytes  
ब्रायोफाइट
- 2) Pteridophytes  
टेरिडोफाइट्स
- 3) Angiosperms  
एन्जियोस्पर्म (आवृतबीजी)
- 4) Gymnosperms  
जिम्नोस्पर्म (अनावृतबीजी)

**Correct Answer:** Angiosperms  
एन्जियोस्पर्म (आवृतबीजी)

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 32. Which one of the following is an insulator?

निम्नलिखित में से क्या विद्युत-रोधी है ?

**Options:**

- 1) Copper  
तांबा
- 2) Wood  
लकड़ी
- 3) Mercury  
पारद
- 4) Aluminium  
एल्युमिनियम

**Correct Answer:** Wood  
लकड़ी

**Candidate Answer:** Wood  
लकड़ी

Question 33. Bubbles of air rise up through liquids due to:

किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं ?

**Options:**

- 1) Surface tension and adherence  
पृष्ठ-तनाव और आसंजन
- 2) viscosity and buoyancy.  
श्यानता और उत्पलव
- 3) air current over the liquid and buoyancy  
तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह और उत्पलव
- 4) Up thrust and surface tension.  
उत्क्षेप और पृष्ठ तनाव

**Correct Answer:** viscosity and buoyancy.  
श्यानता और उत्पलव

**Candidate Answer:** Up thrust and surface tension.  
उत्क्षेप और पृष्ठ तनाव

Question 34. Zeolite is


जियोलाइट क्या है ?

**Options:**

- 1) hydrated ferric oxide  
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड
- 2) hydrated sodium aluminium silicate  
हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट
- 3) sodium hexameta phosphate  
सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट
- 4) sodium tetra borate  
सोडियम टेट्राबोरेट

**Correct Answer:** hydrated sodium aluminium silicate  
हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट

**Candidate Answer:** hydrated sodium aluminium silicate  
हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट



Question 35.The boiling point of liquids vary as

किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक (boiling point) में भिन्नता होती है ?

**Options:**

- 1) pressure varies  
दाब में भिन्नता
- 2) temperature varies  
तापमान में भिन्नता
- 3) volume varies  
आयतन में भिन्नता
- 4) density varies  
घनत्व में भिन्नता

**Correct Answer:** pressure varies

दाब में भिन्नता

**Candidate Answer:** pressure varies

दाब में भिन्नता

Question 36.The largest source of pollution in the world is

विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है ?

**Options:**

- 1) herbicides and insecticides  
शाकनाशी और कीटनाशी
- 2) Automobile exhausts  
आटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं
- 3) Sewage and garbage  
कूड़ा और कचरा
- 4) Industrial effluents  
औद्योगिक बहिःस्राव

**Correct Answer:** Sewage and garbage

कूड़ा और कचरा

**Candidate Answer:** Automobile exhausts

आटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं

Question 37.Among the following states, the literacy rate is highest in

निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है ?

**Options:**

- 1) Orissa  
उड़िसा
- 2) Punjab  
पंजाब
- 3) Maharashtra  
महाराष्ट्र
- 4) Mizoram  
मिज़ोरम

**Correct Answer:** Mizoram

मिज़ोरम

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 38.The minimum number of members that must be present to hold the meeting of the Lok Sabha is

लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए ?

**Options:**

- 1) One-fourth of the total membership  
कुल सदस्यता का एक-चौथाई
- 2) One-tenth of the total membership  
कुल सदस्यता का दसवां भाग
- 3) Fifty percent strength of the Lok Sabha  
लोकसभा की पचास प्रतिशत संख्या
- 4) At least hundred members  
न्यूनतम सौ सदस्य

**Correct Answer:** One-tenth of the total membership

कुल सदस्यता का दसवां भाग

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 39.India's population growth is characterized by

भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है ?

**Options:**

1) An increase in rate of death

मृत्यु दर में वृद्धि

2) An increase in the ratio of females

महिलाओं के अनुपात में वृद्धि

3) An increase in the birth rate and declining death rate

जन्म-दर में वृद्धि किन्तु मृत्यु दर में कमी

4) Increasing number of old people

वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या

**Correct Answer:** An increase in the birth rate and declining death rate

जन्म-दर में वृद्धि किन्तु मृत्यु दर में कमी

**Candidate Answer:** An increase in the birth rate and declining death rate

जन्म-दर में वृद्धि किन्तु मृत्यु दर में कमी

Question 40. What will you call a system of taxation under which the poorer sections are taxed at higher rates than the richer sections?

आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है ?

**Options:**

1) Progressive tax

प्रगामी कर

2) Proportional tax

आनुपातिक कर

3) Regressive tax

पश्चगामी कर

4) Degressive tax

अवक्रमिक कर

**Correct Answer:** Regressive tax

पश्चगामी कर

**Candidate Answer:** Degressive tax

अवक्रमिक कर

Question 41. The most important function of an interest group is to

किसी 'हितबद्ध गुट' का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है ?

**Options:**

1) form the government

सरकार बनाना

2) alter government policies to its liking

अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन

3) build up public opinion

जनमत बनाना

4) Contest elections

चुनाव लड़ना

**Correct Answer:** alter government policies to its liking

अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 42. Which among the following is not correctly paired?

निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही नहीं है ?

**Options:**

1) Shivaji-Afzal Khan

शिवाजी-अफजल खां

2) Nurjahan-Mahabat Khan

नूरजहां-महाबत खां

3) Akbar-Rana Pratap

अकबर-राणा प्रताप

4) Babar-Bairam Khan

बाबर-बैरम खां

**Correct Answer:** Babar-Bairam Khan

बाबर-बैरम खां

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 43. Which of the following deserts is rich in gold reserves?

निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्याधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है ?

**Options:**

- 1) Arabian  
अरब
- 2) Thar  
थार
- 3) Mongolian  
मंगोलिया
- 4) Atacama  
आटाकामा

**Correct Answer:** Atacama  
आटाकामा

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 44. Lacrymal glands are situated in the

अश्रु ग्रंथी कहाँ स्थित होती हैं ?

**Options:**

- 1) Palms  
हथेलियों में
- 2) Buccal cavity  
पुख गुहिका में
- 3) Eye orbit  
नेत्र गुहा में
- 4) Stomach  
पेट में

**Correct Answer:** Eye orbit  
नेत्र गुहा में

**Candidate Answer:** Buccal cavity  
पुख गुहिका में

Question 45. The most extensive use of molasses after fermentation is for producing

किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में "मोलासे" का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है ?

**Options:**

- 1) Methanol  
मेथेनॉल
- 2) Sugar  
चीनी
- 3) Ethanol  
ऐथेनॉल
- 4) Sugarcane  
गन्ना

**Correct Answer:** Ethanol  
ऐथेनॉल

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 46. Acid rain is caused due to pollution of atmosphere by

अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है ?

**Options:**

- 1) oxides of nitrogen and sulphur  
नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से
- 2) oxides of nitrogen and phosphorous  
नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड से
- 3) oxides of carbon and nitrogen  
कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से
- 4) oxides of nitrogen and methane  
नाइट्रोजन और मीथेन के ऑक्साइड से

**Correct Answer:** oxides of nitrogen and sulphur  
नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से

**Candidate Answer:** oxides of nitrogen and sulphur  
नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से

Question 47. The dispute over Siachin Glacier is between

सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है ?

**Options:**

- 1) India and China  
भारत और चीन
- 2) India and Afghanistan  
भारत और अफगानिस्तान
- 3) India and Pakistan  
भारत और पाकिस्तान
- 4) India and Nepal  
भारत और नेपाल

**Correct Answer:** India and Pakistan  
भारत और पाकिस्तान

**Candidate Answer:** India and Pakistan  
भारत और पाकिस्तान

Question 48. Who wrote the famous line: 'A thing of beauty is a joy forever'?

यह प्रसिद्ध युक्ती किसने लिखी थी : "A thing of beauty is a joy forever"

**Options:**

- 1) John Keats  
जॉन कीट्स
- 2) V.S. Naipaul  
वी.एस. नाइपॉल
- 3) Sir Richard Burton  
सर रिचर्ड बर्टन
- 4) Larry Collins  
लैरी कॉलिन्स

**Correct Answer:** John Keats  
जॉन कीट्स

**Candidate Answer:** John Keats  
जॉन कीट्स

Question 49. Who was the first lady Governor of an Indian State?

किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी ?

**Options:**

- 1) Mrs. Sucheta Kripalani  
श्रीमती सुचेता कृपलानी
- 2) Miss Padmaja Naidu  
कु. पद्मजा नायडू
- 3) Mrs Tarkeswari Sinha  
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
- 4) Mrs. Sarojini Naidu  
श्रीमती सरोजनी नायडू

**Correct Answer:** Mrs. Sucheta Kripalani  
श्रीमती सुचेता कृपलानी

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 50. Which of the following is an application protocol?

निम्नलिखित में से कौन-सा एप्लिकेशन प्रोटोकॉल है ?

**Options:**

- 1) HTTP
- 2) TCP
- 3) IP
- 4) UDP

**Correct Answer:** HTTP

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 51. A clock gains 15 minutes per day. If it is set right at 12 noon, the time it shows at 4 AM is

एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है, तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी ?

**Options:**

- 1) 4.20 AM  
4.20 प्रातः
- 2) 4.30 AM  
4.30 प्रातः
- 3) 4.02 AM  
4.02 प्रातः
- 4) 4.10 AM  
4.10 प्रातः

**Correct Answer:** 4.10 AM

4.10 प्रातः

**Candidate Answer:** 4.02 AM

4.02 प्रातः

Question 52. A home theatre set is Rs. 4950. If two successive discounts of 20% and 15% are given, then its selling price is

एक होम थियेटर सेट Rs. 4950 का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ?

**Options:**

1) Rs.3366

2) Rs.6633

3) Rs.3636

4) Rs.6363

**Correct Answer:** Rs.3366

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 53. If 15% of x is three times of 10% of y, then x:y =

यदि x का 15% , y के 10% का तिगुना है, तो x : y किसके बराबर होगा ?

**Options:**

1) 1:2

2) 2:1

3) 3:2

4) 2:3

**Correct Answer:** 2:1

**Candidate Answer:** 2:1

Question 54. A bookseller bought 500 text books for ₹ 20,000. He wanted to sell them at a profit so that he get 50 books free. At what profit percent should he sell them?

किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें ₹ 20000 में खरीदीं। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़ें। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए ?

**Options:**

1) 10

2) 20

3) 15

4) 10.5

**Correct Answer:** 10

**Candidate Answer:** 10.5

Question 55. 20% of a man's salary is paid as rent, 60% are his living expenses and 10% are his savings. If he spends remaining ₹ 30 on the education of his children, find his salary

किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन-यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष ₹ 30 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे, तो उसका वेतन कितना है ?

**Options:**

1) 300

2) 900

3) 3000

4) 9000

**Correct Answer:** 300

**Candidate Answer:** 300

Question 56. A gun is fired at a distance of 6.64 km away from Ram. He hears the sound 20 seconds later. Then the speed of sound is

एक बन्दूक राम से 6.64 कि.मी. की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकेण्ड बाद उसकी आवाज़ (ध्वनि) सुनता है। उस ध्वनि की गति क्या है ?

**Options:**

1) 664 m/s

664 मी./से.

2) 664 km/s

664 कि.मी./से.

3) 332 m/s

332 मी./से.

4) 332 km/s

332 कि.मी./से.



**Correct Answer:** 332 m/s

332 मी./से.

**Candidate Answer:** 332 m/s

332 मी./से.

Question 57. The simple interest on Rs. 2000 for 2 years at Rs. 75 per thousand per annum will be

Rs. 2000 पर Rs. 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा ?

**Options:**

1) Rs.150

2) Rs.300

3) Rs.600

4) Rs.400

**Correct Answer:** Rs.300

**Candidate Answer:** Rs.300

Question 58. If  $x = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$ , then the value of  $x^2 - 2x - 4$  is

यदि  $x = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$  हो, तो  $x^2 - 2x - 4$  का मान बताएं ?

**Options:**

1)  $\sqrt{6}$

2)  $2\sqrt{3}$

3)  $3\sqrt{2}$

4)  $2\sqrt{6}$

**Correct Answer:**  $2\sqrt{6}$

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 59.

If,  $\frac{(a+b)}{\sqrt{ab}} = \frac{2}{1}$ , then the value of  $(a-b)$  is

यदि  $\frac{(a+b)}{\sqrt{ab}} = \frac{2}{1}$  हो, तो  $(a-b)$  का मान क्या होगा ?

**Options:**

1) 1

2) 0

3) -1

4) 2

**Correct Answer:** 0

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 60. If  $\Delta ABC$  is an equilateral triangle of side 16 cm, then the length of altitude is

यदि  $\Delta ABC$  16 से.मी. भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो, तो त्रिकोण कि ऊँचाई बताएं ?

**Options:**

1)  $2\sqrt{3}$  cm

$2\sqrt{3}$  से.मी.

2)  $4\sqrt{3}$  cm

$4\sqrt{3}$  से.मी.

3)  $8\sqrt{3}$  cm

$8\sqrt{3}$  से.मी.

4)  $5\sqrt{3}$  cm

$5\sqrt{3}$  से.मी.

**Correct Answer:**  $8\sqrt{3}$  cm

$8\sqrt{3}$  से.मी.

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 61. O is the circumcentre of  $\Delta ABC$ . If  $AO = 8$  cm, then the length of BO is

$\Delta ABC$  का O परिकेन्द्र है। यदि  $AO = 8$  से.मी. हो, तो BO की लम्बाई बताएं ?

**Options:**

- 1) 12 cm  
12 से.मी.
- 2) 3 cm  
3 से.मी.
- 3) 6 cm  
6 से.मी.
- 4) 8 cm  
8 से.मी.

**Correct Answer:** 8 cm  
8 से.मी.

**Candidate Answer:** 8 cm  
8 से.मी.

Question 62. Given that  $\tan(\theta + 15^\circ) = \sqrt{3}$ . Then the value of  $\theta$  is?

यह मानते हुए कि  $\tan(\theta + 15^\circ) = \sqrt{3}$ , तो  $\theta$  का मान बताएं ?

**Options:**

- 1)  $15^\circ$
- 2)  $75^\circ$
- 3)  $45^\circ$
- 4)  $65^\circ$

**Correct Answer:**  $45^\circ$

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 63. The least number of square tiles of side 41 cms required to pave the ceiling of a room of size 15m 17cm long and 9m 2 cm broad is:

15 मीटर 17 से.मी. लम्बे और 9 मीटर 2 से.मी. चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 से.मी. फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गकार टाइलों की आवश्यकता होगी ?

**Options:**

- 1) 902
- 2) 656
- 3) 738
- 4) 814

**Correct Answer:** 814

**Candidate Answer:** 814

Question 64. The average of fruits offered in a temple in a week was 75. The average of fruits offered in six days excluding Tuesday was 72. How many fruits were offered on Tuesday?

किसी मन्दिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़ कर शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए ?

**Options:**

- 1) 90
- 2) 93
- 3) 72
- 4) 92

**Correct Answer:** 93

**Candidate Answer:** 93

Question 65.

If  $a = x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{3}}$ , then  $a^3 - 3ay - x$  is equal to

यदि  $a = x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{3}}$ , हो तो  $a^3 - 3ay - x$  किस्के बरबर होगा

**Options:**

1)  $\frac{y^2}{x}$

2)  $\frac{x^2}{y}$

3)  $\frac{a^2}{x}$

4)  $\frac{a^2}{y}$

**Correct Answer:**

1)  $\frac{y^2}{x}$

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 66.

If  $x + \frac{1}{x} = 5$ , then the value of  $\frac{6x}{x^2 + x + 1}$  is,

<p>यदि <math>x + \frac{1}{x} = 5</math> हो, तो <math>\frac{6x}{x^2 + x + 1}</math> का मान बताइए ?</p>
---

**Options:**

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

**Correct Answer:** 1**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]Question 67. If  $a > b > 0$ ,  $AB = a - b$  cm,  $BC = 2\sqrt{ab}$  cm, then  $\angle ABC$  isयदि  $a > b > 0$ ,  $AB = a - b$  से.मी.,  $BC = 2\sqrt{ab}$  से.मी. हो, तो  $\angle ABC$  का मान क्या होगा ?**Options:**1)  $45^\circ$ 2)  $60^\circ$ 3)  $90^\circ$ 4)  $120^\circ$ **Correct Answer:**  $90^\circ$ **Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]Question 68. PR is a tangent to a circle with centre O and radius 4 cm at point Q. If  $\angle POR = 90^\circ$ ,  $OR = 5$  cm and  $OP = \frac{20}{3}$  cm, then the length of PR is:PR, O केन्द्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और Q बिन्दु पर त्रिज्या 4 से.मी. है। यदि  $\angle POR = 90^\circ$ ,  $OR = 5$  से.मी. और  $OP = \frac{20}{3}$  से.मी. हो तो PR की लम्बाई बताइए ?

**Options:**

- 1) 3 cm  
2)

$$\frac{16}{3} cm$$

3)

$$\frac{23}{3} cm$$

4)

$$\frac{25}{3} cm$$

**Correct Answer:**

$$\frac{25}{3} cm$$

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 69. From a point, 40 m apart from the foot of a tower, the angle of elevation of its top is  $60^\circ$ . The height of the tower is

किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर, एक बिन्दु से, मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है। मीनार की ऊंचाई बताइए ?

**Options:**

- 1)  $40\sqrt{3}$   
 $40\sqrt{3}$   
 2)  $40\sqrt{3} cm$   
 $40\sqrt{3}$  सी.मी.  
 3)  $40\sqrt{3} m$   
 $40\sqrt{3}$  मी.  
 4)  $40\sqrt{2} m$   
 $40\sqrt{2}$  मी.

**Correct Answer:**  $40\sqrt{3} m$  $40\sqrt{3}$  मी.**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 70. The radius of a sphere and hemisphere are same. The ratio of their total surface area is

किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है। उनके कुल प्रष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं ?

**Options:**

- 1) 3:1  
 2) 2:1  
 3) 3:2  
 4) 4:3

**Correct Answer:** 4:3**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 71. Two equal arcs of two circles subtend angle of  $60^\circ$  and  $75^\circ$  at the centre. The ratio of the radii of the two circles is

दो वृत्तों की दो बराबर की चाप, केन्द्र में  $60^\circ$  और  $75^\circ$  के कोण अन्तर्गत करती है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ?


**Options:**

- 1)  $5/4$   
 2)  $3/2$   
 3)  $4/5$   
 4)  $2/3$

**Correct Answer:**  $5/4$ **Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 72. Study the following graph carefully and answer the questions

निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़ें, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



Which state has the maximum percentage of electrified villages?

किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत गाँव में बिजली है ?

**Options:**


- 1) B
- 2) C
- 3) D
- 4) F

**Correct Answer: C**

**Candidate Answer: C**

Question 73. Study the following graph carefully and answer the questions

निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़ें, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



If the Central Government desires to give aid for speedy electrification starting from states with least electrification, which state will get fourth rank in order of priority?

यदि केन्द्र सरकार तेजी से बिजली लाने के लिए सहायता देना चाहे और ऐसे राज्यों को जिनमें सबसे कम बिजली पहुँची है, तो प्राथमिकता के क्रम में चौथे नम्बर पर कौन-सा राज्य होगा ?

**Options:**


- 1) F
- 2) C
- 3) E
- 4) B

**Correct Answer: F**

**Candidate Answer: F**

Question 74. Study the following graph carefully and answer the questions

निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़ें, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



How many States have at least 60% or more electrified villages?

कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें कम से कम 60% या अधिक गाँवों में बिजली पहुँची है ?

**Options:**


- 1) Five  
पाँच
- 2) Three  
तीन
- 3) Four  
चार
- 4) Two  
दो

**Correct Answer:** Three  
तीन

**Candidate Answer:** Three  
तीन

Question 75. Study the following graph carefully and answer the questions

निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़ें, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



Which state has twice the percentage of villages electrified in comparison to state D?

किस राज्य में D राज्य की तुलना में बिजली युक्त गाँवों का प्रतिशत दुगना है ?

**Options:**

- 1) A
- 2) E
- 3) F
- 4) C

**Correct Answer:** C**Candidate Answer:** C

Question 76. Four words are given, out of which only one word is spelt correctly. Choose the correctly spelt word and click the button corresponding to it.

**Options:**

- 1) Conniosseur
- 2) Connoisseur
- 3) Connossieur
- 4) Connosseieur

**Correct Answer:** Connoisseur**Candidate Answer:** Connossieur

Question 77. In the following question, out of the four alternatives, choose the word which is opposite in meaning to the given word and click the button corresponding to it.

SOOTHE

**Options:**

- 1) QUENCH
- 2) MITIGATE
- 3) HEAL
- 4) AGITATE

**Correct Answer:** AGITATE**Candidate Answer:** MITIGATE

Question 78. In the following question, out of the four alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word and click the button corresponding to it.

DEVASTATION

**Options:**

- 1) DESTRUCTION
- 2) CONSTRUCTION
- 3) SEPARATION
- 4) FRUSTRATION

**Correct Answer:** DESTRUCTION**Candidate Answer:** DESTRUCTION

Question 79. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words/sentences and click the button corresponding to it.

An exact copy

**Options:**

- 1) Facsimile
- 2) Twin
- 3) Mirror
- 4) Clone

**Correct Answer:** Facsimile**Candidate Answer:** Facsimile

Question 80. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words/sentences and click the button corresponding to it.

To give money to agents for sales.

**Options:**

- 1) Salary
- 2) Commission
- 3) Fee
- 4) Incentive

**Correct Answer:** Commission**Candidate Answer:** Commission

Question 81. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words/sentences and click the button corresponding to it.

A person who is working in the same institution.

**Options:**

- 1) Guide
- 2) Collector
- 3) Captain
- 4) Colleague

**Correct Answer:** Colleague**Candidate Answer:** Colleague

Question 82. In each of the questions, four alternatives are given for the Idiom/Phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase and click the button corresponding to it.

Cat-nap

**Options:**

- 1) Rest
- 2) Fitful sleep
- 3) Long sleep
- 4) Short sleep

**Correct Answer:** Short sleep

**Candidate Answer:** Short sleep

Question 83. In each of the questions, four alternatives are given for the Idiom/Phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase and click the button corresponding to it.

To pull a long face

**Options:**

- 1) Looked happily
- 2) Looked surprised
- 3) Looked sad
- 4) Looked calm

**Correct Answer:** Looked sad

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 84. In each of the questions, four alternatives are given for the Idiom/Phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase and click the button corresponding to it.

Fit her like a glove.

**Options:**

- 1) Too large
- 2) Too shabby
- 3) Too tight
- 4) Perfectly

**Correct Answer:** Perfectly

**Candidate Answer:** Perfectly

Question 85. The sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word(s). Four alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it.

Health is too important to be \_\_\_\_\_.

**Options:**

- 1) discarded
- 2) disposed
- 3) neglected
- 4) detested

**Correct Answer:** neglected

**Candidate Answer:** neglected

Question 86. The sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word(s). Four alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it.

I am \_\_\_\_\_ this crime.

**Options:**

- 1) ignorant on
- 2) innocent of
- 3) indebted to
- 4) ignoring

**Correct Answer:** innocent of

**Candidate Answer:** ignorant on

Question 87. The sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word(s). Four alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it.

I was \_\_\_\_\_ paying the toll tax.

**Options:**

- 1) free from
- 2) exonerated from
- 3) exempted from
- 4) exposed to

**Correct Answer:** exempted from

**Candidate Answer:** exempted from

Question 88. In the following questions, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the "No error" option.

I used (A) / a pair of black trousers (B) / for a week (C) / No error (D)



**Options:**

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

**Correct Answer:** A**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 89. In the following questions, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the "No error" option.

He has made a mistake (A)/ of which (B) / I am certain (C) / No error (D)

**Options:**

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

**Correct Answer:** D**Candidate Answer:** B

Question 90. In the following questions, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the "No error" option.

He was not allowed (A) / for the teacher (B) / to read in a low voice (C) / no error (D)

**Options:**

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

**Correct Answer:** B**Candidate Answer:** B

Question 91. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

My mom grew up in a traditional Chinese family in which open expressions of love were never encouraged. When she had me and my three siblings, she treated us with the same hard hand. It was not that she was a slave driver or anything, but she never openly showed affection. Instead, she demonstrated that she cared in more practical ways.

My parents couldn't have been more different emotionally. My dad is a really open-hearted person who constantly showers us with hugs and kisses no matter the occasion. After much persuasion from him, my mother did try to change, but it was clear that she never felt quite right expressing her emotions. Eventually, she reverted to her old self.

The difference between my parents was never starker than whenever I brought home good test results from school. My dad would practically jump with joy, offering warm and affectionate words of congratulations, and my mother? "Ah, good, good" she would typically say with a tense smile etched on her face. "Do better next time, OK?"

I tried not to hold a grudge against her for being so reserved. That was just her way. I reasoned.

Why did the narrator not bear a grudge against her mother?

**Options:**

- 1) She felt that her mother had that kind of nature
- 2) She was satisfied with her father's love
- 3) Her mother was incapable of loving
- 4) Her mother was angry with everyone

**Correct Answer:** She felt that her mother had that kind of nature**Candidate Answer:** She felt that her mother had that kind of nature

Question 92. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

My mom grew up in a traditional Chinese family in which open expressions of love were never encouraged. When she had me and my three siblings, she treated us with the same hard hand. It was not that she was a slave driver or anything, but she never openly showed affection. Instead, she demonstrated that she cared in more practical ways.

My parents couldn't have been more different emotionally. My dad is a really open-hearted person who constantly showers us with hugs and kisses no matter the occasion. After much persuasion from him, my mother did try to change, but it was clear that she never felt quite right expressing her emotions. Eventually, she reverted to her old self.

The difference between my parents was never starker than whenever I brought home good test results from school. My dad would practically jump with joy, offering warm and affectionate words of congratulations, and my mother? "Ah, good, good" she would typically say with a tense smile etched on her face. "Do better next time, OK?"

I tried not to hold a grudge against her for being so reserved. That was just her way. I reasoned.

The narrator's mother reverted to her old self because

**Options:**

- 1) she fought with her husband
- 2) she did not feel comfortable in revealing her emotions
- 3) she was angry with the children
- 4) her husband wanted her to be her old self

**Correct Answer:** she did not feel comfortable in revealing her emotions

**Candidate Answer:** she did not feel comfortable in revealing her emotions

Question 93. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

My mom grew up in a traditional Chinese family in which open expressions of love were never encouraged. When she had me and my three siblings, she treated us with the same hard hand. It was not that she was a slave driver or anything, but she never openly showed affection. Instead, she demonstrated that she cared in more practical ways.

My parents couldn't have been more different emotionally. My dad is a really open-hearted person who constantly showers us with hugs and kisses no matter the occasion. After much persuasion from him, my mother did try to change, but it was clear that she never felt quite right expressing her emotions. Eventually, she reverted to her old self.

The difference between my parents was never starker than whenever I brought home good test results from school. My dad would practically jump with joy, offering warm and affectionate words of congratulations, and my mother? "Ah, good, good" she would typically say with a tense smile etched on her face. "Do better next time, OK?"

I tried not to hold a grudge against her for being so reserved. That was just her way. I reasoned.

The narrator's mother didn't appreciate the narrator's results because

**Options:**

- 1) the marks were not good
- 2) the marks could be better
- 3) she wasn't very expressive
- 4) she was tense

**Correct Answer:** she wasn't very expressive

**Candidate Answer:** she wasn't very expressive

Question 94. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

My mom grew up in a traditional Chinese family in which open expressions of love were never encouraged. When she had me and my three siblings, she treated us with the same hard hand. It was not that she was a slave driver or anything, but she never openly showed affection. Instead, she demonstrated that she cared in more practical ways.

My parents couldn't have been more different emotionally. My dad is a really open-hearted person who constantly showers us with hugs and kisses no matter the occasion. After much persuasion from him, my mother did try to change, but it was clear that she never felt quite right expressing her emotions. Eventually, she reverted to her old self.

The difference between my parents was never starker than whenever I brought home good test results from school. My dad would practically jump with joy, offering warm and affectionate words of congratulations, and my mother? "Ah, good, good" she would typically say with a tense smile etched on her face. "Do better next time, OK?"

I tried not to hold a grudge against her for being so reserved. That was just her way. I reasoned.

How is the narrator's dad different from her mother?

**Options:**

- 1) He is dark
- 2) He expresses his feelings openly
- 3) He dislikes children
- 4) He is persuasive in nature

**Correct Answer:** He expresses his feelings openly

**Candidate Answer:** He expresses his feelings openly

Question 95. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

My mom grew up in a traditional Chinese family in which open expressions of love were never encouraged. When she had me and my three siblings, she treated us with the same hard hand. It was not that she was a slave driver or anything, but she never openly showed affection. Instead, she demonstrated that she cared in more practical ways.

My parents couldn't have been more different emotionally. My dad is a really open-hearted person who constantly showers us with hugs and kisses no matter the occasion. After much persuasion from him, my mother did try to change, but it was clear that she never felt quite right expressing her emotions. Eventually, she reverted to her old self.

The difference between my parents was never starker than whenever I brought home good test results from school. My dad would practically jump with joy, offering warm and affectionate words of congratulations, and my mother? "Ah, good, good" she would typically say with a tense smile etched on her face. "Do better next time, OK?"

I tried not to hold a grudge against her for being so reserved. That was just her way. I reasoned.

Why was the narrator's mother not expressive of her love?

**Options:**

- 1) She was of Chinese origin
- 2) It was not her nature
- 3) She was a harsh person
- 4) The tradition at her home didn't allow her.

**Correct Answer:** The tradition at her home didn't allow her.

**Candidate Answer:** It was not her nature

Question 96. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

Both of us had a different opinion about it.

**Options:**

- 1) Both of us has
- 2) Each of us had
- 3) Each of us have
- 4) No improvement

**Correct Answer:** Each of us had

**Candidate Answer:** No improvement

Question 97. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

The trade union is hell bent at getting its demands fulfilled

**Options:**

- 1) hell bent in
- 2) hell bent about
- 3) hell bent on
- 4) No improvement

**Correct Answer:** hell bent on

**Candidate Answer:** hell bent about

Question 98. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

The police had to break the door to get in

**Options:**

- 1) to break up
- 2) to break in
- 3) to break down
- 4) No improvement

**Correct Answer:** to break down

**Candidate Answer:** to break in

Question 99. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

The plane landed and shot towards the airport

**Options:**

- 1) taxied
- 2) drove
- 3) wheeled
- 4) No improvement

**Correct Answer:** taxied

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 100. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

After a hard days work, I just want to go home.

**Options:**

- 1) hard day's work
- 2) hard days' work
- 3) hard day work
- 4) No improvement

**Correct Answer:** hard day's work

**Candidate Answer:** hard day work